

वीर कुंवर सहि

सरकार स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सहि (1777-1858) को उनकी जयंती (23 अप्रैल) पर श्रद्धांजलि देगी।



कुंवर सहि कौन थे?

- वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर ज़िले का एक हिस्सा है।
- वह बिहार में अंग्रजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे। उन्हें वीर कुंवर सहि के नाम से जाना जाता है।
- वीर कुंवर सहि ने बिहार में वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। वह तब लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्हें हथियार उठाने के लिये बुलाया गया और उनका स्वास्थ्य भी खराब था।
- उनके भाई, बाबू अमर सहि और उनके सेनापति, हरे कृष्ण सहि दोनों ने उनकी सहायता की थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुंवर सहि की प्रारंभिक सैन्य सफलता के पीछे का असली कारण यही था।
- उन्होंने बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और लगभग एक साल तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया तथा अंत तक अजेय रहे। वह गुरल्लिया युद्ध कला के विशेषज्ञ थे।
- 26 अप्रैल, 1858 को उनका निधन हो गया।
- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिये 23 अप्रैल 1966 को भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
- वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सहि विश्वविद्यालय, आरा की स्थापना की गई।
 - वर्ष 2017 में वीर कुंवर सहि सेतु, जिसे आरा-छपरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिये किया गया था।
 - वर्ष 2018 में कुंवर सहि की मृत्यु की 160वीं वर्षगांठ मनाने के लिये बिहार सरकार ने उनकी एक प्रतिमा को हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया था। पार्क को आधिकारिक तौर पर 'वीर कुंवर सहि आज़ादी पार्क' का नाम भी दिया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस